



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 161]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 30, 1983/वैशाख 10, 1905

No. 161]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 30, 1983/VAISAKHA 10, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

जित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1983

अधिसूचनाएं

सं० 136/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

4. 27/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 25 फरवरी,
1983।

[फा० सं० 141/18/82 सी०एक्स-4]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 30th April, 1983

NOTIFICATIONS

No. 136/83-CENTRAL EXCISES

सा० फा० नि० 362 (अ). —केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय
उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1)
द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार
के जित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधि-
सूचनाओं को विरुद्धित करती है, अर्थात्:—

1. 90/82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 फरवरी,
1982
2. 3/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 जनवरी,
1983
3. 4/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 जनवरी,
1983

G.S.R. 362(E).—In exercise of the powers conferred by
sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise rules, 1944, the
Central Government hereby rescinds the following notifica-
tions of the Government of India in the Ministry of Finance
(Department of Revenue), namely:—

- (1) 90/82-Central Excises, dated the 28th February,
1982.
- (2) 3/83-Central Excises, dated the 1st January, 1983.
- (3) 4/83-Central Excises, dated the 1st January, 1983.
- (4) 27/83-Central Excises, dated the 25th February,
1983.

[F. No. 141/18/82-CX. 4]

सं० 137/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 363(घ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 68 के अन्तर्गत आने वाले 3.25 मि० मीटर (10 एस० डब्ल्यू० जी०) से बारीक (पतले) नम एलुमिनियम तारों को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

[फा० सं० 141/18/82-सी० एक्स 4]

No. 137/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 363(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 the Central Government hereby exempts bare aluminium wires finer than 3.25 mm (10 SWG), falling under Item No. 68 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act.

[F. No. 141/18/82-CX. 4]

सं० 138/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 364 (घ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 68 के अन्तर्गत आने वाली 0.315 मि० मीटर (30 एस० डब्ल्यू० जी०) के और 0.315 मि० मीटर (30 एस० डब्ल्यू० जी०) से बारीक (पतले) नम तांबे के तारों को, जिनके बारे में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि वे नकली "जरी" के विनिर्माण के लिए आशयित हैं, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

[फा० सं० 141/18/82-सी० एक्स 4]

No. 138/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 364(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts bare copper wires of 0.315 mm (30 SWG) and finer (thinner) than 0.315 mm (30 SWG), falling under Item No. 68 of the First Schedule to Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), which are proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Central Excise to be intended for the manufacture of imitation

"Zari", from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act.

[F. No. 141/18/82-CX. 4]

सं० 139/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 365 (घ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 81/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 मार्च, 1983 की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना से उपान्वत अनुसूची में

(1) क्रम सं० 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(ii) क्रम सं० 48 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियाँ अन्तर्स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"49 सं० 135/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 1983

50 सं० 137/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 30 अप्रैल, 1983

51 सं० 138/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 30 अप्रैल, 1983"

[फा० सं० 141/18/82-सी० एक्स 4]

एस० के० मल्ही, उप-सचिव

No. 139/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 365(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 81/83-Central Excises dated the 1st March, 1983, namely:—

In the Schedule annexed to the said notification,—

(i) SI. No. 2 and the entries relating thereto shall be omitted;

(ii) after SI. No. 48 and the entry relating thereto, the following SI. Nos. and entries shall be inserted, namely:—

"49 No. 135/83-Central Excises, dated the 30th April, 1983.

50 No. 137/83-Central Excises, dated the 30th April, 1983.

51 No. 138/83-Central Excises, dated the 30th April, 1983".

[F. No. 141/18/82-CX. 4]

S. K. MALHI, Dy. Secy.